



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002  
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002  
Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402  
Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

## DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : CED 43/T-96

Date : 17 November 2022

**TECHNICAL COMMITTEE : Soil And Foundation Engineering, CED 43**

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Soil And Foundation Engineering Sectional Committee, CED 43. Please [click here](#) to view the document.

**Document Number : CED 43 (21227) WC**

**Title of the document : Draft Indian Standard Compaction Mould Assembly for Light And Heavy Compaction Test of Soil — Specification (First Revision of IS 10074)**

*This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:*

1) *This standard covers the requirements of compaction mould assembly used for determination of water content – dry density relation of soils using light and heavy compaction.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

**Last date for sharing the comments is : 18 December 2022**

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at

ced@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,**  
**(Arun Kumar S.)**  
**Sc. 'E'/Director & Head (Civil Engg.)**  
**Email: ced@bis.gov.in**



## व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : CED 43/T-96

दिनांक : 17-11-2022

**तकनीकी समिति : Soil And Foundation Engineering Sectional Committee, CED 43**

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : CED 43 (21227) WC

शीर्षक : हल्की और भारी मृदा के संघनन परीक्षण के लिए संघनन सांचा असेंबली \_ विशिष्ट का भारतीय मानक मसौदा (IS 10074 [??] [??][??] [??][??][??][??][??])

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

**सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 18 December 2022**

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,  
(अरुण कुमार एस.)  
वैज्ञानिक 'ई'/निर्देशक और प्रमुख (सिविल इंजीनियरिंग)  
ई-मेल : [ced@bis.gov.in](mailto:ced@bis.gov.in)